

## HSC की लिखित परीक्षाओं के दौरान COVID-19 safe के प्रति अपेक्षा

इस जानकारी से विद्यार्थियों को अपनी HSC परीक्षा में भाग लेते समय लागू COVID-19 safe प्रबंधों को समझने में सहायता मिलेगी। उपस्थित विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है और इसलिए हम सभी विद्यार्थियों से निवेदन करते हैं कि वे हर समय इन प्रबंधों में सहयोग दें।

### जिन विद्यार्थियों में लक्षण दिखाई दे रहे हों उनके लिए स्क्रीनिंग (जाँच)

- यदि विद्यार्थी अस्वस्थ हैं तो उनके लिए यह आवश्यक है कि परीक्षा देने न आएँ
- विद्यार्थियों के आने पर उनसे पूछा जाएगा कि क्या उन्हें फ़्लू-जैसे कोई लक्षण हैं या क्या उन्हें NSW Health द्वारा दिए निर्देश के अधीन सेल्फ-आइसोलेशन (एकाँतवास) में होना चाहिए
- जिन विद्यार्थियों में फ़्लू-जैसे लक्षण हों या जो हमें ये बताएँ कि वे अस्वस्थ हैं, उन्हें स्कूल से जाने और COVID-19 टेस्ट कराने का प्रबंध करने के लिए कहा जाएगा
- जिन विद्यार्थियों की क्लिनिकल हिस्ट्री (चिकित्सीय इतिहास) हो या जो किसी ऐसे ज्ञात रोग से ग्रस्त हों जो COVID-19 के लक्षणों जैसा प्रतीत हो, उन्हें अभी योजना बनानी चाहिए और अपने डॉक्टर (GP) से बात करनी चाहिए। GP लिखित आश्वासन दे सकता है – जैसे कि विद्यार्थी में ऐसे लक्षण सामान्यतः आते रहते हैं।

### फ़्लू-जैसे लक्षण

फ़्लू-जैसे लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलना, गंध और स्वाद के अहसास का खो जाना शामिल है। COVID-19 के लक्षणों के बारे में अतिरिक्त जानकारी [NSW Health website](https://www.nsw.gov.au/health) पर पाई जा सकती है।

वे विद्यार्थी जिन्हें फ़्लू-जैसे लक्षण चाहे मामूली ही क्यों न हों, उन्हें भी तुरंत वापिस चले जाना चाहिए और तब तक वापिस नहीं आना चाहिए जब तक उनके COVID-19 टेस्ट का परिणाम नेगेटिव न आ जाए और वे लक्षण-मुक्त न हो जाएँ।

### COVID-19 टेस्ट परिणाम शीघ्रता से प्राप्त करवाने

HSC विद्यार्थी अपने COVID-19 टेस्ट परिणाम शीघ्रता से प्राप्त करवा सकते हैं

ऐसा करने के लिए उनके लिए यह ज़रूरी होगा कि:

- वे टेस्ट करवाते समय यह कहें कि वे HSC के विद्यार्थी हैं
- वे यह सुनिश्चित करें कि टेस्ट करने वाला डॉक्टर या नर्स उनके रेफरल पर 'urgent — HSC' लिखे
- नेगेटिव परिणाम मिलने तक वे सेल्फ-आइसोलेट (एकाँतवास) करें
- अपने स्कूल को नेगेटिव परिणाम दिखाएँ
- यदि 36 घंटों में परिणाम नहीं मिलते हैं तो उपलब्ध कराए गए संपर्क नम्बर पर फोन करें।

## संक्रमण के खतरे को कम से कम करना

- विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू करने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए या हैंड सैनीटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए।
- परीक्षा के दौरान अच्छी निजी स्वच्छता को अमल में लाएँ, इसमें खाँसते या छींकते समय मुँह को कोहनी या टिश्यू से ढकना, तथा परीक्षा की समाप्ति पर टिश्यू को कूड़ेदान में फेंकना शामिल है।
- परीक्षा वाले दिन अन्य विद्यार्थियों से हाथ मिलाने या गले लगने से परहेज करें।
- सभी परीक्षा स्थलों पर जो स्वच्छता आपूर्तियाँ उपलब्ध होंगी, उनमें शामिल हैं:
  - सैनीटाइज़र
  - वाइप्स
- यदि विद्यार्थी चाहे तो वह अपनी परीक्षा शुरू करने से पहले अपने टेबल को वाइप से साफ कर सकता है।
- विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले और इसके बाद बड़े समूहों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए।
- परीक्षा कक्षों को हर रोज़ साफ किया जाएगा।

## आगमन और साइन-ऑन प्रबंध

- विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे परीक्षा से 20 मिनट पहले न आएँ और स्क्रीनिंग तथा साइन-ऑन के लिए सीधे नामांकित परीक्षा कक्ष में जाएँ।
- विद्यार्थियों को परीक्षा में उपस्थिति की पुष्टि करने, संपर्क विवरण देने और यह पुष्टि देने के लिए उपस्थिति शीट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा कि उन्हें फ़्लू-जैसे लक्षण नहीं हैं।

## परीक्षा के वैकल्पिक स्थान

यदि नियोजित स्थान में परीक्षा का आयोजन पूरा न किया जा सके तो आपके स्कूल ने उस परिस्थिति में परीक्षा के एक वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की है। यह जानकारी आपको आपके निजी परीक्षा टाइमटेबल में दी जाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह छोटी अवधि के नोटिस में तुरंत उपलब्ध हो।

यह केवल एक अतिरिक्त व्यवस्था (बैकअप) है और विद्यार्थियों को नियोजित स्थान पर ही जाना चाहिए बशर्ते कि स्कूल कोई दूसरी सूचना दे। यदि आपको स्कूल ने प्रस्तावित वैकल्पिक स्थान पर जाने के लिए नहीं कहा है तो वहाँ न जाएँ।

## COVID-19 के प्रमाणीकृत मामले

यदि परीक्षा अवधि के दौरान स्कूल को NSW Health से यह सूचना मिलती है कि COVID-19 का कोई प्रमाणीकृत मामला सामने आया है जिससे स्कूल पर प्रभाव पड़ सकता है, तो जहाँ संभव होगा, बाधा को कम से कम करने के लिए प्रबंध लागू किए जाएँगे। हो सकता है कि स्कूल आपको एक दिन पहले उस परीक्षा में आपके टाइमटेबल में बताए वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किए जाने या परीक्षा के रद्द किए जाने की सूचना दे।

## रोग/अभाग्य

जो विद्यार्थी लक्षणों के होने के कारण परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं, या जिन्हें स्क्रीनिंग (जांच) के कारण वहाँ से वापिस जाने के लिए कहा जाता है, वे रोग/अभाग्य दावे के लिए पात्र होंगे। जहाँ आवश्यक होगा आपका स्कूल इस प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा।

## टेलीफोन दुभाषिया सेवा

यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया अपने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करें। यदि अपनी पृष्ठभूमि में सहायता करने के लिए आपको किसी दुभाषिए की ज़रूरत है तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फोन करें और अपनी भाषा में किसी दुभाषिए के लिए निवेदन करें। यह सेवा आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी।